



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 695) पटना, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई 2024

सं० 04/मेट्रो-02-09/2024/4977—न0वि0 एवं आ0वि0  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प  
(शुद्धि-पत्र)  
22 जुलाई 2024

विषय— पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं संरेखण (Alignment) के क्रम में आने वाली राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र सं०-636 दिनांक-12.03.1991 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तांतरण के संबंध में निर्गत संकल्प ज्ञापांक-674 दिनांक-16.02.2023 की कंडिका-05 (iii) में अंकित बजट शीर्ष में संशोधन के संबंध में।

पटना मेट्रो रेल परियोजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका निर्माण होने से पटना के यातायात व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। इस योजना को पूर्ण करने हेतु भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है तथा भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

- पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए विभिन्न सरकारी विभागों यथा शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, उर्जा विभाग, परिवहन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों तथा विभागों द्वारा भूमि हस्तांतरण किया जाना है।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं संरेखण के क्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों की आने वाली भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तान्तरण हेतु वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सहमति के उपरान्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से नीति एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-674 दिनांक-16.02.2023 निर्गत किया गया। इस संकल्प की कंडिका-05(iii) में अंकित बजट शीर्ष को संशोधित करने का वित्त विभागीय परामर्श है।
- विभागीय संकल्प ज्ञापांक-674 दिनांक-16.02.2023 की कंडिका-05 (iii) में अंकित बजट शीर्ष को संशोधित करते हुए “व्यय मुख्य शीर्ष-5075—अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60—अन्य, लघु शीर्ष-190—सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों

में निवेश, उपशीर्ष-0101-पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०, विषय शीर्ष-54 01-निवेश, विपत्र कोड-48-5075.60.190.0101 में बजट उपबंध के विरुद्ध डेबिट करते हुए प्राप्ति, मुख्य शीर्ष-0029- भू-राजस्व, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105- सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियाँ, उपशीर्ष-0002-सरकारी भूमि के बिक्री से प्राप्त राशि, विषय शीर्ष-00 31-अन्य प्राप्तियाँ” प्रतिस्थापित किया जाता है। संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. संशोधन के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
**सुनील कुमार यादव,**  
सरकार के अपर सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**  
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट (असाधारण) 695-571+200-डी०टी०पी०**  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>